



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1933 (श10)

(सं0 पटना 657) पटना, बृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

29 जुलाई 2011

सं0 22/नि0सि0(यॉ0)-132/94/937—श्री श्रीनेत राय, कार्यपालक अभियन्ता (सेवा—निवृत्त) द्वारा यांत्रिक प्रमण्डल, मोहम्मदगंज (नया नाम— औरंगा निर्माण यांत्रिक प्रमण्डल, पौकी) के पदस्थापन अवधि माह अगस्त 88 से दि.सम्बर 89 के बीच की गयी अनियमितताओं के लिए उनके सेवा—काल में ही विभागीय संकल्प सं0 1620, दिनांक 28 जुलाई 1990 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी जो इनकी सेवा—निवृत्ति तक पूरी नहीं हो सकी। विभागीय कार्यवाही में इन्हें दोषी पाया गया। सरकार द्वारा सम्यक समीक्षोपरान्त श्री राय पर निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये:—

(1) 17.52 लाख रुपये (सतरह लाख बावन हजार) का क्रय श्री नेत राय, कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बिना बजट, बिना अवंटन बिना सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति एवं बिना आवश्यकता के किया गया।

(2) 196 अर्द्ध सामग्रियों का डी0 जी0 एस0 डी0 से क्रय उनके द्वारा बिना आवश्यकता के किया गया।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए इनसे विभागीय पत्रांक 538, दिनांक 15 फरवरी 1997 द्वारा द्वितीय कारण—पृच्छा की गयी तथा उनसे प्राप्त उत्तर की पुनर्समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त उपर्युक्त आरोपों के लिए दोषी पाया गया।

अतएव बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 बी0 के अन्तर्गत श्री श्रीनेत राय, कार्यपालक अभियन्ता यांत्रिक सेवा—निवृत्त को विभागीय आदेश सं0 771, दिनांक 26 अगस्त 1997—सह—पठित ज्ञापांक 2577, दिनांक 26 अगस्त 1997 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गया।

“ पूर्ण पेंशन पर सदा के लिए रोक”।

श्री श्रीनेत राय, कार्यपालक अभियन्ता (सेवा—निवृत्त) द्वारा यांत्रिक प्रमण्डल, मोहम्मदगंज, पलामू को यांत्रिक अवर प्रमण्डल सं0 1 मोहम्मदगंज पलामू के अधीन अस्थायी अग्रिम की राशि के लेखा संधारण नहीं होने पर मौन रहने, वित्तीय अनियमितता को जान बूझ कर अनदेखी करने तथा लापारवाही बरतने के लिए विभागीय पत्रांक 732, दिनांक 8 मार्च 1994 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री राय को अस्थायी रूप से दिये गये अग्रिमों का समायोजन एवं संधारण का समुचित प्रयास नहीं करने के लिए दोषी पाते हुए विभागीय ज्ञापांक 1792, दिनांक 25 अगस्त 1995 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित की गयी:—

(1) “चेतावनी” की सजा की जिसकी प्रविष्टि श्रीनेत राय, कार्यपालक अभियन्ता यांत्रिक की चारित्री वर्ष 1989—90 में की जायेगी।

उपर्युक्त दोनों दण्डादेशों के विरुद्ध श्रीनेत राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 10101/97 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2010 को न्याय निर्णय पारित किया गया। न्याय निर्णय की कंडिका-8 में एनेक्सचर 12 एवं 13 को निरस्त करते हुए मामले को अनुशासनिक प्राधिकार को रिमांड करते हुए यह स्वतंत्रता दी गयी है कि विभागीय कार्यवाही में पाये गये तथ्यों से संबंधित संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति के विन्दु पर साक्ष्य के साथ याचिकर्त्ता को कारण पृच्छा/सूचना निर्गत की जाए तथा अगर आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हो तो द्वितीय कारण पृच्छा करते हुए निर्णय लिया जाए।

तदनुसार विभागीय अधिसूचना, ज्ञापांक 1929, दिनांक 22 दिसम्बर 2010 द्वारा विभागीय आदेश सं0 771, दिनांक 26 अगस्त 1997-सह-पठित ज्ञापांक 2577, दिनांक 26 अगस्त 1997 एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक 1792, दिनांक 25 अगस्त 1995 को इस शर्त के साथ निरस्त किया गया कि उक्त आदेश इस मामले में की जानेवाली द्वितीय कारण-पृच्छा के फलाफल से प्रभावित होगा।

कारण-पृच्छा से संबंधित पत्रांक 14, दिनांक 05 जनवरी 2011 श्री राय को दिनांक 19 जनवरी 2011 को विशेष दूत के माध्यम से हस्तगत कराया गया। पत्र में जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय निर्धारित था परन्तु श्री राय द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर विभागीय ज्ञापांक 190, दिनांक 18 फरवरी 2011 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित कराई गई। दिनांक 22 फरवरी 2011 को "प्रभात खबर" एवं दिनांक 23 फरवरी 2011 को दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशन के बाद भी श्री राय द्वारा कारण-पृच्छा का कोई जवाब नहीं दिया गया।

उपर्युक्त के आलोक में सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त एवं पूर्ण विचारोपरांत, और चूंकि आरोप प्रमाणित हुए जिसके लिए वृहत दंड का समाधान हुआ, अतः श्री नेत राय को निम्नलिखित सजा देने "पूर्ण पेंशन पर सदा के लिए रोक" का निर्णय लिया गया है।

श्री राय को एवं सभी संबंधित को यह निर्णय संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 657-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>